

## सरकारी खाते

### सं. 18 : संघ सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि करोड़ रुपये)

| मद                                      | वित्त वर्ष<br>2008-09<br>(संशोधित अनुमान) | 2007-08<br>(वास्तविक) | अप्रैल-जनवरी          |                       |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                         |                                           |                       | 2008-09<br>(वास्तविक) | बजट अनुमान का प्रतिशत |             |
|                                         |                                           |                       |                       | 2007-08               | 2008-09     |
| 1                                       | 2                                         | 3                     | 4                     | 5                     | 6           |
| <b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>            | <b>5,62,173</b>                           | <b>4,02,229</b>       | <b>4,04,815</b>       | <b>76.6</b>           | <b>72.0</b> |
| 2. कर राजस्व (निवल)                     | 4,65,970                                  | 3,24,064              | 3,29,271              | 75.1                  | 70.7        |
| 3. करेतर राजस्व                         | 96,203                                    | 78,165                | 75,544                | 83.8                  | 78.5        |
| <b>4. पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>           | <b>3,38,780</b>                           | <b>1,37,613</b>       | <b>2,66,264</b>       | <b>74.7</b>           | <b>78.6</b> |
| 5. ऋण की वसूली                          | 9,698                                     | 4,012                 | 3,406                 | 89.2                  | 35.1        |
| 6. अन्य प्राप्तियाँ                     | 2,567                                     | 37,800                | 43                    | 104.6                 | 1.7         |
| 7. उधार लेना और अन्य देयताएं            | 3,26,515                                  | 95,801                | 2,62,815              | 66.7                  | 80.5        |
| <b>8. कुल प्राप्तियाँ (1+4)</b>         | <b>9,00,953</b>                           | <b>5,39,842</b>       | <b>6,71,079</b>       | <b>76.1</b>           | <b>74.5</b> |
| <b>9. योजनेतर व्यय</b>                  | <b>6,17,996</b>                           | <b>3,87,116</b>       | <b>4,71,998</b>       | <b>77.1</b>           | <b>76.4</b> |
| 10. राजस्व खाते में जिसमें :            | 5,61,790                                  | 3,27,041              | 4,45,388              | 79.2                  | 79.3        |
| (i) व्याज भुगतान                        | 1,92,694                                  | 1,37,035              | 1,48,261              | 79.7                  | 76.9        |
| 11. पूँजी खाते में                      | 56,206                                    | 60,075                | 26,610                | 67.6                  | 47.3        |
| <b>12. योजना व्यय</b>                   | <b>2,82,957</b>                           | <b>1,52,726</b>       | <b>1,99,081</b>       | <b>73.6</b>           | <b>70.4</b> |
| 13. राजस्व खाते में                     | 2,41,656                                  | 1,30,548              | 1,68,677              | 74.3                  | 69.8        |
| 14. पूँजी खाते में                      | 41,301                                    | 22,178                | 30,404                | 69.5                  | 73.6        |
| <b>15. कुल व्यय (9+12)</b>              | <b>9,00,953</b>                           | <b>5,39,842</b>       | <b>6,71,079</b>       | <b>76.1</b>           | <b>74.5</b> |
| 16. राजस्व व्यय (10+13)                 | 8,03,446                                  | 4,57,589              | 6,14,065              | 77.7                  | 76.4        |
| 17. पूँजी व्यय (11+14)                  | 97,507                                    | 82,253                | 57,014                | 68.1                  | 58.5        |
| <b>18. राजस्व घाटा (16-1)</b>           | <b>2,41,273</b>                           | <b>55,360</b>         | <b>2,09,250</b>       | <b>87.2</b>           | <b>86.7</b> |
| <b>19. राजकोषीय घाटा {15-(1+5+6)}</b>   | <b>3,26,515</b>                           | <b>95,801</b>         | <b>2,62,815</b>       | <b>66.7</b>           | <b>80.5</b> |
| <b>20. सकल प्राथमिक घाटा [19-10(i)]</b> | <b>1,33,821</b>                           | <b>-41,234</b>        | <b>1,14,554</b>       | <b>145.6</b>          | <b>85.6</b> |

टिप्पणी: 1. वित्तीय वर्ष 'अप्रैल से मार्च' तक होता है।

2. वास्तविक आँकड़े अलेखापरीक्षित हैं।

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।